



Vindhya Telelinks Limited

Regd. Office : Udyog Vihar, P.O. Chorhata,
Rewa - 486 006 (M.P.) India.

Tel. : (07662) 400400 · Fax : (07662) 400591

E-Mail : headoffice@vtlrewa.com · Website : www.vtlrewa.com

PAN No. AAACV7757J · CIN No. L31300MP1983PLC002134

GSTIN : 23AAACV7757J1Z0

VTL/CS/24-25/Reg-47

13 AUG 2024

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort,
MUMBAI-400 001

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: 517015

Company's Scrip Code: VINDHYATEL

Dear Sir/Madam,

**Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Standalone
and Consolidated Financial Results for the quarter
ended on 30th June, 2024**

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Advertisements of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2024 published in Newspapers viz. – Financial Express (in English) and Dainik Jagran (in Hindi) on 13th August, 2024.

We request you to kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Vindhya Telelinks Limited

(Dinesh Kapoor)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



Works: i) Plot No. 1, Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 (M.P.)

ii) Plot No. 1-C & 1-D, Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 (M.P.)

INTERTEC TECHNOLOGIES LIMITED
 CIN NO. L8510KA1989PLC010456
 Registered Office: 28, Shankar Murt Road, Bangalore-560004
 Phone: 080-26679094/26611317; email: compliance@intertec1.com, URL: www.intertec1.com
 Extract of the Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30/06/2024 (Rs. In Lakhs except EPS data)

No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2024
1	Total Income/(from Operations or others)	0	0	0	0	0	0
2	Net profit for the period after tax	-63.96	-1.23	-6.01	69.08	-1599.66	-1604.44
3	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax)	-63.96	-1.23	-6.01	69.08	-1599.66	-1604.44
4	Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs.10/-)	756.070	756.070	756.070	756.070	756.070	756.070
5	Earnings per share of Rs.10/- each: Basic & Diluted (Rs)	(0.085)	(0.002)	(0.008)	0.914	(21.158)	(21.221)

Notes:
 1 The above is an extract of the detailed format of Audited (standalone & consolidated) financial results for the Quarter ended 30th June 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI LODR(2015) Full format of the Financial Results available at the Company website: www.intertec1.com & MSEI website: www.msei.in
 2 The results have been reviewed by the Audit Committee & approved in Board meeting held on 12.08.2024

Place: Bangalore
 Date: 12.8.2024

By Order of the Board
T S Ravi Chandar
 (Managing Director; DIN: 01684760)

VINDHYA TELELINKS LIMITED
 Regd. Office: Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 (M.P.)
 CIN: L31300MP1983PLC002134
 Telephone No: 07662-400400, Fax No: 07662-400591
 E-mail: headoffice@vtrewa.com; Website: www.vtrewa.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024
 (₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended 31.03.2024
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations	83339.77	129182.58	408837.15
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	3963.80	14497.79	7887.14
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	3963.80	14497.79	7887.14
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	2944.95	10834.94	5883.59
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	14662.53	11067.94	16799.04
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	1185.09	1185.09	1185.09
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	374081.90
8	Basic & Diluted Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	24.85	91.43	49.65

Key Unaudited Standalone Financial Information of the Company is as under:

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended 31.03.2024
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations	83339.77	129182.58	408837.15
2	Profit before Tax	2651.76	6596.34	5081.20
3	Profit after Tax	1963.13	4922.12	3783.84
4	Total Comprehensive Income	2765.41	1914.03	6053.62

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above quarterly results are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.vtrewa.com.

for Vindhya Teletelinks Limited
(Harsh V. Lodha)
 Chairman
 DIN: 00394094
 New Delhi

Date: 12th August, 2024

B.P. CAPITAL LIMITED
 CIN: L74899HR1994PLC072942
 Regd. Off.: Plot no. 138, Roz Ka Meo Industrial Area, Sohna (Dist. Meerut), Haryana-122103
 Phone: 01276-222501, 02, Fax: 01276-222501, Website: www.bpcapital.in, Email: bpcapitalimited@gmail.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2024
 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
	Total income from operations	0	0
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.85)	(3.04)	(14.16)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.85)	(3.04)	(14.16)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(3.85)	(3.04)	(14.16)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(3.85)	(3.04)	(14.16)
Equity Share Capital	601.18	601.18	601.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	(135.26)
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	(0.06)	(0.05)	(0.24)
Basic : Diluted :	(0.06) (0.06)	(0.05) (0.05)	(0.24) (0.24)

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Unaudited Financial Results is available at BSE's websites, viz., www.bseindia.com and on the Company's website www.bpcapital.in

For and on behalf of the Board of Directors of
B. P. Capital Limited
 Sd/-
Aditya Aggarwal
 Managing Director
 DIN: 08982957

Place: Haryana
 Date: 12th August, 2024

PATBACK BUSINESS LIMITED
 CIN: L74999DL1984PLC018747
 Regd Off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Ph No: 011-27860681
 Email id: crazypricingdel@gmail.com | Website: www.patback.in

EXTRACTS OF THE STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024
 (₹ In lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended 31/03/2024 (Audited)
		30/06/2024 (Un-Audited)	31/03/2024 (Audited)	
1	Total income from operations	2.62	142.47	611.18
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional &/or Extraordinary items)	(3.84)	6.40	(5.08)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	(3.84)	6.40	(5.08)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional &/or Extraordinary items)	(3.84)	5.31	(5.08)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	(3.84)	5.31	(5.08)
6	Equity Share Capital	1024.80	1024.80	1024.80
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	443.16	73.14	73.14
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic : 2. Diluted :	(0.04) (0.04)	0.08 (0.08)	(2.05) (2.05)

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the Website of the Company's (www.patback.in) and website of the stock exchange(s) (www.msei.in)
 2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 12th August 2024.
 3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind -as rules (As amended).

For and on behalf of the Board of Directors of
Patback Business Limited
 Sd/-
Pawan Kumar Mittal (Director)
 DIN: 00749265

Date: 12.08.2024
 Place: New Delhi

OXYZO Financial Services Limited
 (FORMERLY KNOWN AS OXYZO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED)
 Registered office: Shop No. G-22 (UGF) D-1 (K-84) Green Park Main, New Delhi-110016
 Tel. No: 011-47640758, Website: www.oxyzo.in, CIN: U65929DL2016PLC306174
Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended 30 June 2024
 (Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)
 (All amounts in Rupees lakhs, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended 31 March 2024 (Audited)
		30 June 2024 (Reviewed)	31 March 2024 (Reviewed)	
1	Total Income from Operations	25,297.36	23,745.40	18,688.10
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	11,185.85	10,259.50	8,430.25
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	11,185.85	10,259.50	8,430.25
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	8,453.86	7,859.04	6,281.34
5	Total comprehensive income for the period	8,447.53	7,716.56	6,200.52
6	Paid up Equity Share Capital	5,367.86	5,367.86	5,367.86
7	Instruments entirely equity in nature	1,438.29	1,438.29	1,438.29
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,60,790.65	2,52,139.88	2,29,023.47
9	Securities Premium Account	1,89,180.35	1,89,180.35	1,89,180.35
10	Net worth	2,67,596.80	2,58,946.03	2,35,829.82
11	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	4,80,976.92	4,59,706.94	3,21,876.40
12	Debt Equity Ratio	1.80	1.78	1.36
13	Earnings per share (nominal value of share Rs. 10 each): Basic (in Rupees) Diluted (in Rupees)	12.42 11.70	11.25 10.60	9.23 8.82

Notes:
 a) The above is an extract of the detailed format of quarterly ended financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly ended financial results are available on the websites of the BSE Limited i.e. www.bseindia.com and at our website www.oxyzo.in.
 b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to Bombay Stock Exchange and can be accessed on the website.
 c) The above standalone financial results for the quarter ended 30 June 2024 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12 August 2024.

For and on behalf of the Board of Directors
 Sd/-
Ruchi Kalra
 Whole time Director and Chief Financial Officer
 (DIN: 03103474)

Place: Gurugram
 Date: 12.08.2024

UNISTAR UNIVERSAL CABLES LIMITED
 Registered Office: P.O. Birla Vikas, Satna - 485 005 (M.P.)
 Phone: (07672) 257121 to 257127, 414000 - Fax: (07672) 416228
 E-mail: headoffice@unistar.co.in - Website: www.unistar.co.in
 CIN: L31300MP1945PLC001114
AN IS/ISO 9001, 14001 & 45001 COMPANY

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2024
 (₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
		1	Total Income from Operations	48870.13	58032.57
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	829.66	6483.43	3200.90	14412.89
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	829.66	6483.43	3200.90	14412.89
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	559.19	4856.77	2404.59	10822.46
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3690.34	8804.76	7034.21	28882.90
6	Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)	3469.83	3469.83	3469.83	3469.83
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	169221.78
8	Basic & Diluted Earnings per share (Face Value ₹ 10/- each) (not annualised)	1.61	14.00	6.93	31.19

Key Unaudited Standalone Financial Information of the Company is as under:-

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 30.06.2023 (Unaudited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
		1	Total Income from Operations	48870.13	58032.57
2	Net Profit for the period before Tax	216.82	3401.36	1265.10	7007.07
3	Net Profit for the period after Tax	166.77	2601.43	916.42	5426.18
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	675.05	6433.35	3074.03	16673.61

Notes:
 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated and Standalone Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above quarterly results are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website: www.unistar.co.in

for Universal Cables Limited
(Harsh V. Lodha)
 Chairman
 DIN: 00394094

Place : New Delhi
 Date : 12.08.2024

JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LIMITED
 Registered Office : 504 & 505, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098
 E: jsel@roads-srl.com T: +91 22 6841 7000 F: +91 22 6841 7077 W: www.jsel.co.in.CIN: U45203MH2010PLC204456

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024
 (Rs. in Millions)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended 31.03.2024 (Audited)
		June 30, 2024 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)	
1	Total Income	483.17	478.27	480.40
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11.14	44.09	309.06
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.14	44.09	309.06
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11.14	44.09	309.06
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	11.14	44.07	309.06
6	Paid-up equity share capital (face value - ₹ 10 per share)	840.00	840.00	840.00
7	Reserves (excluding revaluation Reserve)	986.80	(1,426.24)	(1,426.24)
8	Securities Premium Amount	-	-	-
9	Net worth	1,826.80	(586.24)	(239.40)
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	5,552.53	7,876.54	33,316.90
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt/Equity Ratio (number of times)	3.04	(13.44)	(55.62)
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each) : (* Not annualised)			
	(a) Basic	0.13	0.52	3.68*
	(b) Diluted	0.13	0.52	3.68*
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debtenture Redemption Reserve	816	816	816
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (number of times)	1.07	0.05	0.18
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (number of times)	1.07	1.28	0.94

(* Restated (refer note 4))

Notes:
 1 The above is an extract of the detailed format of results filed for quarter ended on June 30, 2024 with National Stock Exchange (NSE) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter ended financials results are available on the websites of the NSE - www.nseindia.com and the Company - www.jsel.co.in.
 2 For the items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to NSE and can be accessed on the website www.nseindia.com and on the Company's website - www.jsel.co.in.
 3 The above results are in compliance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified by the Ministry of Corporate Affairs, read with SEBI Circular No. CIR/MD/DF/69/2016 dated August 10, 2016
 4 During the previous financial year, the company has recalculate the amount spent towards CSR expenditure included in other expenses same is not required to make provision in accounts. As result, said provision of Rs.17.4 million and Rs.4.46 million reduce from statement of profit and loss the year ended March 2023 and quarter ended June 23 respectively. Financial Statements have been restated in accordance with Ind AS 8 read with Ind AS 1.
 5 The above financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 12, 2024 and has been reviewed by the Statutory Auditor of the Company.

For and on behalf of the Board
JORABAT SHILLONG EXPRESSWAY LIMITED
 J K Mishra
 Whole time director
 DIN:10560340

Place: Mumbai
 Date: August 12, 2024

Best Agrolife Limited
 Think Big, Think Best
 Registered & Corporate Office : B-4, Bhagwan Dass Nagar, East Punjabi Bagh, New Delhi-110026
 Ph: 011-45803300, Email: info@bestagrolife.com, Website: www.bestagrolife.com
 CIN: L74110DL1992PLC116773

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024
 (Rs. In Millions except per share data)

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	QUARTER ENDED		YEAR ENDED		QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
	30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024	30-06-2024	31-03-2024	30-06-2023	31-03-2024
Total Income from operations	3,608.82	1,042.31	6,125.38	17,983.57	5,192.60	1,353.92	6,122.32	18,733.19
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	295.47	(277.43)	321.75	190.94	319.18	(923.33)	1,145.86	1,336.95
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	295.47	(277.43)	321.75	190.94	319.18	(923.33)	1,145.86	1,336.95
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	220.21	(210.94)	239.11	134.62	212.75	(724.91)	905.04	1,062.67
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax))	220.61	(213.09)	239.25	135.60	212.94	(523.53)	904.97	1,267.56
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs 10/- each)	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45	236.45
Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) on Net Profit (Not annualised) - Basic and Diluted	9.31	(8.92)	10.11	5.69	9.00	(30.66)	38.28	44.94

Notes:
 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of Quarter ended financial results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and also on the Company's website: www.bestagrolife.com
 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 12, 2024. These results have been subjected to Limited review by the statutory Auditor.

For Best Agrolife Limited
Vimal Kumar
 Managing Director
 DIN: 01260082

Place: New Delhi
 Date: August, 12 2024

SUBROS LIMITED
 REGD. OFFICE : LGF, WORLD TRADE CENTRE, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001
 CIN: L74899DL1985PLC020134; Tel: 011-23414946; Fax: 011-23414945; Website: www.subros.com; Email: kamal.samtani@sub

नशे को जड़ से समाप्त करने का अभियान अनवरत जारी रहेगा : उप मुख्यमंत्री

नशामुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में किया गया आयोजन

जागरण, रीवा

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि नशे को जड़ से समाप्त करने का अभियान अनवरत जारी रहेगा। नशे के अपराध में लिस लोगों को जेल भेजा जाएगा तथा नशा करने वालों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही नशा सुधार केन्द्रों में पहुंचाकर उन्हें नशे की लत से छुटकारा दिलाने का कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल नशामुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र कार्यक्रम में शामिल हुए।

कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। यह विकास आने वाली पीढ़ी के लिए सौभाग्य है। आने वाली पीढ़ी यदि नशे में रहेगी तो विकास के फल का स्वाद उसे नहीं मिल पाएगा। रीवा जिले को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। गत दिनों मेडिकल नशे की बड़ी खेप को



पकड़कर अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है। श्री शुक्ल ने कहा कि नशामुक्त रीवा बनाकर इसे देश का सबसे बेहतर जिला बनाते हुए सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लें। इस कार्य में सभी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नशामुक्ति के संबंध में शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि नशे से परिवार व समाज कमजोर होता है तथा व्यक्ति में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि अपने एवं परिवार तथा समाज एवं देशहित के लिए नशे से दूर रहने का संकल्प लें। बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच में अंतर बताते हुए गलत रास्ते पर जाने से रोके।

इससे पूर्व पीके तिवारी ने नशा छोड़कर अपना सुखद जीवन जीने का अनुभव साझा किया। स्वयंसेवी

संगठन के सुजीत द्विवेदी ने नशामुक्त रीवा बनाने में आमजनों का आह्वान किया। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने स्वागत उद्घोषण करते हुए कार्यक्रम के आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत नीता कोल, अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, कमिश्नर रीवा संभागा बीएस जामोद, आईजी एमएस सिकरवार, डीआईजी एसपी पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, सीडीओ जिला पंचायत डॉ सारेभ सोनवणे, अर्जुन सिंह चौहान, शिवदत्त पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी, छात्र-छात्राएं, खिलाड़ी, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ संजीव पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम के दौरान सुवेन्द्र सिंह शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नुक़ड़ नाटक का प्रदर्शन कर नशे की बुराईयों का संदेश दिया गया।

पॉलीटेक्निक कॉलेज में दो नये संकायों में प्रवेश प्रारंभ

उप मुख्यमंत्री के प्रयासों से स्थानीय युवा होंगे कुशल, मिलेगा रोजगार

रीवा। रीवा जिले में औद्योगिक विकास एवं युवाओं के रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के विशेष प्रयासों के फलस्वरूप, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय रीवा में दो नए संकाय, सिविल एवं मैकेनिकल प्रारंभ करने की अनुमति गत दिनों मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गयी थी। सिविल और मैकेनिकल संकायों में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता के लिए कुल 12 पद मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत किए गये हैं। साथ ही, शासकीय

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, रीवा में फॉर टेक्नालॉजी एण्ड सेफ्टी ब्रांच को वर्तमान पद स्वीकृति सहित यथावत रखा जाएगा। योजना के लिए अपेक्षित आवर्ती-अनावर्ती व्यय के लिए रूपये 5 करोड़ 92 लाख रुपये के वित्तीय प्रावधान की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। नवीन संकायों को पोर्टल में शामिल कर दिया गया है तथा छात्रों का प्रवेश भी प्रारंभ हो गया है।

रीवा के औद्योगिक विकास को मिलेगी नई गति

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि इससे रीवा जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी और यहां के युवाओं

को रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में सिविल एवं मैकेनिकल के छात्रों की मांग के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर ही कुशल मैनुफैचर की पूर्ति के लिए रीवा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में नये संकाय प्रारंभ किए गये हैं। इन नए संकायों के प्रारंभ होने से इस अंचल के विद्यार्थियों को तकनीकी रोजगारमूलक शिक्षा का लाभ प्राप्त होगा और वे औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। प्राचार्य निशा पाण्डेय ने बताया कि नवीन स्वीकृत संकायों को पोर्टल में शामिल कर दिया गया है तथा इनमें प्रवेश के लिये काउंसिलिंग 13 व 14 अगस्त तक होगी। सीएलसी राउड में भी छात्र इन संकायों में प्रवेश ले सकते हैं।

अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी

रीवा। अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बीसी में शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली से होगी। पहले चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं। उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण कराना होगा। दूसरे चरण में 17 अगस्त के बाद ऐसे रिक्त पद जिस पर रिक्त वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत किए गए हैं। उन पदों पर आनलाइन नए आवेदकों से आवेदन जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइंस फिलिंग करवाकर नियोजन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में गैर शैक्षणिक पद जैसे पीटीआई, लैब, लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्यवाही अगस्त के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। इसके अलावा जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पद प्रभार तला नवीन भती के लिए रिजर्व हैं। वह उच्च पद प्रभार तथा भती के बाद खुलेंगे। 30 फीसदी से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेगी।

पेंटियम पॉइंट में दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ



रीवा। पेंटियम प्वाइंट टेक्निकल कॉलेज के हर्दी परिसर में छात्र-छात्राओं को नशा से दूर रहने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए परिचर्चा व शपथ भी दिलाई गई। साथ ही महाविद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं द्वारा नुक़ड़ नाटक के माध्यम से समाज को नशा से मुक्ति

दिलाने के लिए संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज गुप्ता, रविप्रकाश गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, जयप्रकाश सोनी, पंकज पटेल, नेहा सिंह, सौरभ कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।

कुलगुरु ने दिलाई नशा मुक्त भारत की शपथ



रीवा। विकसित भारत का मंत्र, भारत को नशे से स्वतंत्र जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को प्रातः 9 बजे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के सभी विभागों में विभागाध्यक्षों एवं प्रशासनिक भवन में कुलगुरु के द्वारा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्त भारत की शपथ ग्रहण कराया गया। इस अवसर पर कुलगुरु ने विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को अपने विश्वविद्यालय एवं समूर्ण देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर सम्भव प्रयास करने की प्रेरित किया।

16 कंपनियों युवाओं को देगी रोजगार के अवसर

रीवा। टीआरएस कालेज रीवा में आगामी 16 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला मध्य प्रदेश संकल्प योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 16 कंपनियों एवं निजीयों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु सीमा विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग होगी। युवाओं को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छात्राप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीवन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा। यह कंपनियां आएंगी : उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में शिवराज इम्प एण्ड कन्टेनर्स प्रा. लि. कल्याण मुंबई, प्राइम इंजीनियरिंग, आशिया इलेक्ट्रीशियन ठाणे मुंबई, प्रीसीटेल मशीन टूल्स प्रा.लि.कल्याण मुंबई, गाला प्रिंजिज इंजीनियरिंग लि. वाटर फील्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ठाणे मुंबई की कंपनियां शामिल होंगी। मेले में कनेक्टवेल डीबैबली, मुंबई ट्योमन इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा.लि. बोरोवली, रीटेन्ड प्रेसीज इंजीनियरिंग लि. परसेरा हरियाणा तथा एल ईटी कॉन्स्ट्रक्शन रिस्कल्स अम्बालाद गुजरात की कंपनियां आएंगी।

उन्नति की राह प्रशस्त करती है पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा

पुस्तकालयों के विकास के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महात्त्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा हमें जीवन में व्यवस्थित, संगठित होकर उन्नति के ओर ले जाने की राह प्रशस्त करती है। विशिष्ट अतिथि प्रवोच पाण्डेय ने पुस्तकालय विज्ञान विभाग में इस तरह के कार्यक्रमों को भविष्य में भी व्यवस्थित तथा संगठित रूप से आयोजित करने पर बल दिया। उन्होंने विभाग के सात वर्ष पुरे हो जाने के उपलक्ष्य में एक वृहद कार्यक्रम पुराछात्रों के सहयोग से करने हेतु योजना बनाने की बता कही। मुख्य अतिथि व प्राचार्य डॉ अर्पिता अवस्थी ने इस तरह विभाग में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रोत्साहित किया और छात्रों को लगन एवं निष्ठा के साथ अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। अंत में विभाग के छत्र विपिन पाण्डेय द्वारा अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान विभाग के शिक्षक, छात्र-छात्र तथा पुराछात्र उपस्थित रहे। सबने एक मत से विभाग में नवम्बर में पुस्तक सप्ताह के दौरान योजना बनाकर पुरा छात्र सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया।

छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी



रीवा। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में 'विकसित भारत का मंत्र: भारत हो नशे से स्वतंत्र' देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव दुबे, कार्यक्रम प्रभारी डॉ विवेक वर्मा, डॉ डी.पी. शुक्ला, डॉ उपस्थित रहे। महाविद्यालय में अन्धरत छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई तथा शपथ दिलायी गयी। इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉ डीपी शुक्ला, डॉ. संजय तिवारी, डॉ. संजय सिंह परिहार, डॉ अनिता सिंह तिवारी, डॉ. अभिलाशा श्रीवास्तव, डॉ प्रीति, डॉ. केसरकली तिवारी, डॉ संतोष अग्निहोत्री, डॉ विनीता कश्यप, डॉ अनीता द्विवेदी, डॉ. हबीब खान डॉ. शिव कुमार दुबे, डॉ. राजेश भारती, डॉ. सुलभा सिंह, डॉ. आरके दुबे, डॉ. स्वाति शुक्ला, डॉ. बाल महेंद्र प्रजापति, डॉ सुनीता गुप्ता, डॉ संजय मिश्रा, आकाश वर्मा, अर्पित तिवारी तथा महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं व कर्मचारी उपस्थित रहे।

छात्र-छात्राओं को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ



रेवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हुआ आयोजन
रीवा। रेवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ब्रह्मकुमारीज इंद्रिय विश्वविद्यालय के सहयोग से मद्यपान और अन्य नशों से मुक्ति के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वीके इंदु बहन व वीके सतेंद्र भाई, प्रधानाचार्य मुनेंद्र सिंह और निदेशक सुरेंद्र पटेल की उपस्थिति रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीके इंदु बहन एवं वीके सतेंद्र भाई ने बताया नशा मानवता के लिए अभिशाप है, इसलिए नशा मुक्त भारत बनाने हेतु सभी को आगे आना चाहिए।

टीआरएस में मनाया गया राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष समारोह



रीवा। शासकीय टाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष समारोह मनाया गया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉ एस.आर. रंगनाथन की 132वीं जयंती पर यह कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग द्वारा इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान के छात्र, शिक्षकों और पुराछात्रों को भी अर्मात्रित किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ सुनील तिवारी ने राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस एवं डॉ एस.आर.

विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : उद्योग विहार, डाकघर-चोरहटा, रीवा - 486006 (म.प्र.)
CIN: L31300MP1983PLC002134
Telephone No: 07662-400400, Fax No: 07662-400591
Email: headoffice@vtlrewa.com; Website: www.vtlrewa.com
30 जून, 2024 को समाप्त हुई तिमाही के अनांकित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख ₹ में)

क्रमांक	विवरण	तिमाही अवधि			
		30.06.2024 (अनांकित)	31.03.2024 (अंकित)	30.06.2023 (अनांकित)	31.03.2024 (अंकित)
1	परिचालनों से कुल आय	83339.77	129182.58	85081.73	408837.15
2	समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	3963.80	14497.79	7887.14	37671.97
3	कर के पूर्व समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	3963.80	14497.79	7887.14	37671.97
4	कर के पश्चात समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	2944.95	10834.94	5883.59	28268.81
5	समयावधि के लिए विस्तृत आय [समयावधि के लिए लाभ (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात) को समावेशित करते हुए]	14662.53	11067.94	16799.04	57953.04
6	समता अंश पूंजी (प्रति अंश आय मूल्य ₹10/- प्रति)	1185.09	1185.09	1185.09	1185.09
7	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़ कर)				374081.90
8	आधारभूत एवं तरकीबत प्रति अंश आय (₹ 10/- प्रति अंश) (वार्षिककरण रहित)	24.85	91.43	49.65	238.54

कम्पनी की अनांकित एकांगी मुख्य वित्तीय सूचनाएं इस प्रकार हैं:

क्रमांक	विवरण	तिमाही अवधि			
		30.06.2024 (अनांकित)	31.03.2024 (अंकित)	30.06.2023 (अनांकित)	31.03.2024 (अंकित)
1	परिचालनों से कुल आय	83339.77	129182.58	85081.73	408837.15
2	कर के पूर्व लाभ	2651.76	6596.34	5081.20	20616.09
3	कर के पश्चात लाभ	1963.13	4922.12	3783.84	15505.55
4	समयावधि के लिए विस्तृत आय	2765.41	1914.03	6053.62	20743.70

टिप्पणी: उपरोक्त विवरण कम्पनी के 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अनांकित समेकित एवं एकांगी वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है जो कि सेबी के (दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) अधिनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में फाईल किया गया है। उपरोक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेब साईट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com एवं कम्पनी की वेब साईट www.vtlrewa.com पर भी उपलब्ध है।

कृते विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड (हर्ष वी. लोढा)
चेयरमैन
डीन :00394094
नई दिल्ली

दिनांक : 12 अगस्त, 2024

तुलसी साहित्य के अध्ययन से होगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण: उप मुख्यमंत्री

मानस भवन में चल रहे पंच दिवसीय तुलसी जयंती का समापन

रीवा। तुलसी जयंती समारोह में स्कूल शिक्षा, महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को जोड़कर युवकों में तुलसी साहित्य के प्रति रुझान उत्पन्न करने का जो सर्वोत्तम प्रयास मानस मण्डल द्वारा किया गया है वह समाज हित तथा हमारी नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण की दिशा में किया गया बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आज आवश्यकता यह है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए युवाओं में नैतिक पक्ष तथा मर्यादा पालन की भूख जागृत करें। और यह तुलसी साहित्य के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। उक्त उद्धार मानस मंडल मानस भवन द्वारा आयोजित पंच दिवसीय तुलसी जयंती समारोह के समापन अवसर पर भारी जन समुदाय के बीच उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा व्यक्त किए गए। श्री शुक्ल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा समाज में राम के आदर्श तथा उनके धैर्य,संयम एवं पराक्रम के



सकारात्मक उपयोग का संदेश जन-जन में पहुंचाया, जो लोक हित में मानस मंडल द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्य है। अयोध्या धाम से पधारें सन्त डॉ. रघुवर दास वेदांती महाराज ने कहा कि मानव जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। पूर्व जिला न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने प्रतिपादित किया कि राम के पूर्व दशरथ का राज्य, धर्म राज्य था। डॉ. आर पी सिंह, डी.पी. सिंह परिहार, रेड क्रॉस समिति के जिला अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी, पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, हितेंद्र नाथ शर्मा पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

छात्रों को पुरस्कार वितरण किया

पंच दिवसीय तुलसी साहित्य परिचर्चा में भाग लेने वाले महाविद्यालयीन छात्रों को पुरस्कार किया जिनमें टी.आर.एस कॉलेज के अमर चौरसिया, शशि त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र सिंह, अन्वय से आदित्य कुमार दहिया, अनुराधा तिवारी, वर्षा तिवारी, सुशी तिवारी, कृष्ण सोधिया, आयुष कुशवाहा, पांजल गुप्ता, अभिषेक सोधिया एवं स्वाती श्रीवास्तव शामिल हैं। इस अवसर पर 'मानस मंडाकिनी' का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री एवं वेदान्ती महाराज तथा अन्य प्रतिष्ठितजनों के द्वारा संपन्न हुआ, कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन रामसहय मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर एड.राजभाज सिंह, अयोध्या श्रीवास्तव, राजेश भल्ल, संग्राम सिंह, लाल जी शर्मा, मोहेश्वरी त्रिपाठी, वीरेंद्र मिश्र, मंगल पसाद गुप्ता, डॉ. अशोक श्रीवास्तव, मुकुंद मिश्रा, राजमणि मिश्र, डॉ. सी.डी. दुबे, अशोक सिंह, लाल बहादुर सिंह, सार्जेंट रमेश पांडे, सूबेदार नाटक संतोष मिश्र, उप पुलिस अधीक्षक अरविंद तिवारी, सचेंद्र मिश्रा, दुर्गा दुबे, परमेश्वरी त्रिपाठी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।